

थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में गरिबट

संदर्भ

वाणजिय मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आँकड़ों के मुताबकि, जून में थोक मूल्य सूचकांक में कमी आई है जो कपछिले 11 महीनों में सबसे नचिले स्तर पर है। पछिले कुछ महीनों से थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में जारी कमी, जो जून 2017 में रकॉर्ड कम हुई है, सौम्य मुद्रास्फीति के युग की दशा में बदलाव को प्रतबिबिति करती है।

प्रमुख बदि

- इस सप्ताह जारी थोक एवं खुदरा कीमतों के आँकड़े कीमतों में संतुलन को दर्शाते हैं।
- वाणजिय मंत्रालय द्वारा जारी आँकड़ों के मुताबकि, जून में थोक मूल्य सूचकांक 0.9 % पर था जो कपछिले 11 महीनों में सबसे नचिले स्तर है। ऐसा खाद्य मुद्रास्फीति में कमी एवं वनिरिमाण की कीमतों में कमजोरी के कारण हो सका था।
- यह ऐसे समय में हुआ जब खुदरा मुद्रास्फीति की दर जून में धीमी होकर 1.54% तक आ गई थी जो कभारतीय रज़िर्व बैंक द्वारा नरिधारति नमिन सहषिणुता स्तर से नीचे है।
- जून में थोक मूल्य सूचकांक की वृद्धि में कमी, जो कफिरवरी में 5.51% पर थी, लगातार चौथे महीने तक जारी है। पछिली बार 2016 में यह 1% से कम थी, तब यह 0.63% पर थी।
- एक तरफ प्राथमकि वस्तुओं की श्रेणी में जून में थोक मूल्य सूचकांक वृद्धि में 3.86% की कमी हुई, तो वही इसी दौरान खाद्य वस्तुओं के क्षेत्र में 3.47% की कमी हुई।
- पछिले कुछ महीनों में खाद्य मुद्रास्फीति काफी कम हुई है जो कीमतों के दृष्टिकोण से सामान्य है।

वनिरिमिति उत्पाद

- जून में वनिरिमिति उत्पादों की श्रेणी में मुद्रास्फीति 2.27% पर आ गई है जो कनिवंबर 2016 से सबसे धीमी है। ईधन और बजिली में जून में मुद्रास्फीति की तीव्रता घट कर 5.28% पर आ गई, जो कउसके पछिले महीने 11.7% पर थी।
- गरिबट वाली मुद्रास्फीति परिदृश्य, जो केंद्रीय बैंक के महँगाई के लक्ष्य को एक बड़े अंतर से रेखांकति कर रही है, आरबीआई को उसके दरों में कमी करने पर वचिार करने को प्रेरति कर रही है।
- सीआईआई ने आगामी मौद्रकि नीति में मांग में तेज़ी लाने के लयि 50 आधार अंकों की दर में कटौती की सफिारशि की है।

WPI एवं CPI में क्या अंतर है ?

- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का उपयोग थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों का पता लगाने के लयि कयिा जाता है। अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापना या पता लगाना वास्तव में असंभव है। इसलयि थोक मूल्य सूचकांक में एक नमूने को लेकर मुद्रास्फीति को मापा जाता है। इसके पश्चात एक आधार वर्ष तय कयिा जाता है जिसके सापेक्ष में वर्तमान मुद्रास्फीति को मापा जाता है।
- भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर महँगाई की गणना की जाती है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में मुद्रास्फीति की माप खुदरा स्तर पर की जाती है जिसमें उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं। यह पदवति आम उपभोक्ता पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेहतर तरीके से मापती है।